



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2382]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2012/अग्रहायण 22, 1934

No. 2382]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2012/AGRAHAYANA 22, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2883(अ).—भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), की अधिसूचना सं. का.आ. 1668(अ), तारीख 24 जुलाई, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 24 जुलाई, 2012, में प्रकाशित अनुसूची में, पृष्ठ 19 पर स्तंभ (4) के नीचे उप-स्तंभ (4) (b) में "357A" पढ़ें।

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉरीडोर]

ओ.पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2012

S.O. 2883(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), No. S.O. 1668(E) dated 24th July, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 24th July, 2012 in the Schedule, at page 39, in column (4), in sub-column (4) (b), for "375A", read "357A".

[F. No. 2010/LML/12/4-Western Corridor]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)